



ABM International Limited

REGD. OFFICE : 37 DLF IND. AREA, KIRTI NAGAR, NEW DELHI- 110015

PHONES : 011-41426044 / 41426055

E-mail : vkgandhi@abmintl.in | Website : www.abmintl.in

CIN No.: L51909DL1983PLC015585

NSE TRADING SYMBOL - ABMINTLLTD

13.11.2024

To,
The Manager
Listing Department.
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No, C/ I, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai — 400 051

Symbol "ABMINTLLTD"

Dear Sirs,

I attached herewith copies of the Newspaper Clipping of the Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September , 2024 result as got published in the "Financial Express" and "Jan Satta" dated 12th November 2024.

Kindly take note of the same.

Thanking you,

Yours Sincerely,

For ABM INTERNATIONAL LIMITED

Amit Kumar
Company Secretary

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED
(A SCHEDULED COMMERCIAL BANK)
Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

APPENDIX IV [SEE RULE 8(i)] POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) under the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Act, 2002 [54 of 2002]) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice on the date as mentioned below calling upon the borrowers to repay the amount mentioned in the said notice within 60 days from the date of receipt of the said notice as per the details given in below table:

Name of Borrower/Co-Borrower/ Mortgagee/Guarantor / Loan A/c No.	13(2) Notice Date & Amount	Description of Mortgaged Property	Date of Possession Taken
(A/c No.) L9001060126140267 Arun (Borrower), Chandher Pal Singh (Co-Borrower)	12-Jul-24 Rs. 1023747/- Rs. Ten Lac Twenty Three Thousand Seven Hundred Forty One Only 11-Jul-24	All that part and parcel of residential/commercial property Land/ Building/ Structure and fixtures Property Situated At- Gat No 207, Village Kherli, Halpaur Pargana Sikandrabad, Dist- Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh Admeasuring 323 Sq.Yds	08-Nov-24
(A/c No.) L9001060117164669 Smit Kumar Prajapati (Borrower), Sunil Rubi Prajapati (Co-Borrower)	12-Mar-24 Rs. 1588677/- Rs. Fifteen Lac Eighty Eight Thousand Six Hundred Seventy Seven Only 11-Mar-24	All that part and parcel of residential/commercial property Land/ Building/ Structure and fixtures Property Situated At- PROPERTY NO. A-1/82-C & Old No-82/35/18/1, VILL- ASHTAPUR KHADAR, Chanayva Place, Part-I, UTTAM NAGAR, NEW DELHI Admeasuring 30 SqYds, East: OTHER PROPERTY, West: GALL, North: OTHER PROPERTY, South: OTHER PROPERTY	11-Nov-24

The borrower having failed to repay the amount, therefore notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein above mentioned table in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said (Act-2002) read with Rule 8 of the said rule on the date mentioned in the above table. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) for the amount and interest thereon mentioned in the above table.

Place: DELHI
Date: 12 November 2024
Authorized Officer AU Small Finance Bank Limited

ABM INTERNATIONAL LIMITED
CIN No. L51909DL1983PLC015585
Regd Office: 37, DLF Ind Area, Kirti Nagar, New Delhi-110015
Ph: 011-41426055, E-mail: vkgandhi@abmintl.in, Website: www.abmintl.in

Extract of Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2024 (Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended		Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended	
	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	31.03.2024	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
	Standalone	Unaudited	Standalone	Unaudited	Standalone	Consolidated	Unaudited	Consolidated	Unaudited	Consolidated	Consolidated	
Total Revenue	1681.31	3221.13	4,605.92	5,724.18	9411.88	1681.31	3221.13	4,605.92	5,724.18	9411.88	9411.88	
Profit / (Loss) before Exceptional and Extraordinary Items and tax	(50.29)	3.42	244.50	(105.80)	(459.32)	(50.29)	3.42	244.50	(105.80)	(459.32)	(459.32)	
Share of profit/(loss) of associates	--	--	--	--	--	(0.24)	(0.12)	(0.31)	(0.17)	1.85	1.85	
Profit / (Loss) before extraordinary items and tax	(50.29)	3.42	244.50	(105.80)	(459.32)	(50.53)	3.30	244.19	(105.97)	(457.47)	(457.47)	
Profit / (Loss) before tax	(50.29)	3.42	224.50	(105.80)	(459.32)	(50.53)	3.30	244.19	(105.97)	(457.47)	(457.47)	
Profit / (Loss) for the period from continuing operations	(50.29)	3.42	224.50	(105.80)	(342.95)	(50.53)	3.30	244.19	(105.97)	(341.55)	(341.55)	
Items that will be reclassified to profit or loss	0.26	--	0.26	--	7.06	0.26	--	0.26	--	2.01	2.01	
Total Other Comprehensive Income/(Loss) for the period	0.26	--	0.26	--	7.06	0.26	--	0.26	--	2.01	2.01	
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period	(50.03)	3.42	244.76	(105.80)	(335.89)	(50.27)	3.30	244.45	(105.97)	(339.54)	(339.54)	
Paid-up equity share capital	940.80	940.80	940.80	940.80	940.80	940.80	940.80	940.80	940.80	940.80	940.80	
Other Equity												
Earning Per equity share (of Rs.10/- each):												
(1) Basic (Rs. Per Share)	(0.53)	0.04	2.60	(1.12)	(3.57)	(0.53)	0.04	2.60	(1.13)	(3.61)	(3.61)	
(2) Diluted (Rs. Per Share)	(0.53)	0.04	2.60	(1.12)	(3.57)	(0.53)	0.04	2.60	(1.13)	(3.61)	(3.61)	

Note: 1. The above is an extract of detailed format of Quarterly and Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulation 2015.
2. The full format of Quarterly and Half Yearly Financial Result are available on the Stock Exchange website www.nseindia.com and the company's website www.abmintl.in

for and on behalf of the Board of Directors
ABM INTERNATIONAL LIMITED
Sd/-
(Rajneesh Gandhi)
Managing Director
DIN- 00244906

Date - 12-11-2024
Place - New Delhi

HDB FINANCIAL SERVICES
REGISTERED OFFICE: RADHIKA, 2ND FLOOR, LAW GARDEN ROAD, NAVRANGPURA, AHMEDABAD-380009
BRANCH OFFICE: HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED, Kharsa No. 47, Opposite Dussehra Ground, Budella, Near Oxford School, Vikaspuri, New Delhi-110018

THE UNDERSIGNED AS AUTHORIZED OFFICER OF HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED HAS TAKEN OVER POSSESSION OF THE FOLLOWING PROPERTY PURSUANT TO THE NOTICE ISSUED U/S 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF THE FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 IN THE FOLLOWING LOAN ACCOUNTS WITH A RIGHT TO SELL THE SAME ON 'AS IS WHERE IS BASIS' AND 'AS IS WHAT IS BASIS' FOR REALIZATION OF COMPANY'S DUES.

1. BORROWER'S & GUARANTOR'S NAME & ADDRESS
2. TOTAL DUE- INTEREST FORM

Borrower's & Guarantor's Name & Address	Description of the Property	1. DATE & TIME OF E-AUCTION 2. LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD 3. DATE & TIME OF THE PROPERTY INSPECTION	1. RESERVE PRICE 2. EMD OF THE PROPERTY
V3 Mobi Communications Private Limited - E-12/2, Sector 1, First Floor, Noida 201301 Also At- Shop No.LG-04-GNS Plaza Plot No S7/2, site 4, Greater Noida 201301 Om Prakash Singh S/o Shri Raja Pal Singh - Flat No-610 Technology Apartment Plot No-24 LP Extn Delhi Delhi-110092 Also At: R/o 04, saya Ambedkar Nagar, UP 224152 Also at E-12/2 Sector-1 First Floor Noida- 201301 Phryanka Paul, Flat No-610 Technology Apartment Plot No-24 LP Extn Delhi Delhi-110092 Loan Account No. - 3289978 Rs. 1,32,38,279.84 (Rupees One Crore Thirty Two Lakh Eighty Eight Thousand Two Hundred Seventy Nine and Paise Eighty Four) as of 09.06.2020 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc	All that parts and parcel of the Shop/office/Store bearing No. LG-04, on Lower Ground Floor(Basement), in commercial Building known as Greater Noida Shopping Plaza, Situated at Plot No S-7/2, in Industrial Area, Suraj Pur Site-IV, in Village - Kasna, Pargana, Tehsil Sadar, District Gautam Budh Nagar, U.P., admeasuring Total super area 467.936 Square meters (140.521 Sq. mtr. Carpet Area + 327.415 sq. ltrs. Common Area) be the same a title more or less, as described above and bonded; North - Lift: South - Outer Wall. East - Shop No LG-03, West: Outer Wall 10 Meter Road	1) E-AUCTION DATE: 29.11.2024 -10.30 AM to 12.30 PM WITH UNLIMITED EXTENSION OF 5 MINUTES 2) LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD WITH KYC 27.11.2024 - TILL 5 PM 3) DATE OF INSPECTION: BETWEEN 25.11.2024 - 12.00 PM TO 2.00 PM IST	Reserve Price (IN INR): Rs. 16058504/- (Rupees One Crore Sixty Lakhs Fifty Eight Thousand Five Hundred Four Only) EMD Amount (IN INR): Rs. 16058504/- (Rupees Sixteen Lakhs Five Thousand Eight Hundred Fifty Only)
Atul Jain H.No. 65 Block-JP Floor Second Floor, Pitampura Delhi-110034, Delhi And Also: 3006 & 3007 Aryapura, Subzi Mandi, Delhi, Delhi-110007 Manisha Jain H.No. 65 Block-JP Floor Second Floor, Pitampura Delhi-110034, Delhi Rajendra Kumar Jain H.No. 65 Block-JP Floor Second Floor, Pitampura Delhi-110034, Delhi Loan Account No. - 3512882 Rs. 685937/- (Rupees Eight Lakh Fifty Eight Thousand Nine Hundred & Thirty Seven Only) as of 04.06.2022 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc	All piece and parcel of property bearing Shop No. 3006 on Ground Floor and one Godown no. 3007 (without roof right), measuring 40.35 Sq. Mtr. i.e. 48 Sq. Yard, Situated at aryapura, Subzi Mandi, Delhi, Registered in the name of Rajendra Kumar Jain, North: Road, South: Lane, East: Plot No 16, West: Plot No 18, Property No 2: All that piece and parcel of Plot No 18, Kharsa No 566, Gangapuram Colony, Village Dasna, Ghaziabad -201001, Property Area 250.50sq Yds Sale Deed in favour of Shri Fehar Hareesh - North: Road, South: Lane, East: Plot No 16, West: Plot No 18, Property No 2: All that piece and parcel of Plot No 18, Kharsa No 566, Gangapuram Colony, Village Dasna, Ghaziabad -201001, Property Area 250.50 Sq Yds Sale Deed in favour of Shri Babu Lal and Fehar Ashwin Bhai - North: Plot No 17, South: Road, East: Plot No 20, West: Plot No 20	1) E-AUCTION DATE: 29.11.2024 -10.30 AM to 12.30 PM WITH UNLIMITED EXTENSION OF 5 MINUTES 2) LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD WITH KYC 27.11.2024 - TILL 5 PM 3) DATE OF INSPECTION: BETWEEN 25.11.2024 - 12.00 PM TO 2.00 PM IST	Reserve Price (IN INR): Rs. 1499860/- (Rupees Fourteen Lakhs Ninety Nine Thousand Eight Hundred Sixty Only) EMD Amount (IN INR): Rs. 1499860/- (Rupees One Lakh Forty Nine Thousand Eight Hundred Sixty Only)
Babu Lal Manvi Bhai Kasundra, Plot No 17, Kharsa No 566, Gangapuram Colony, Ghaziabad -201001 Also At- Plot No 11, Gangapuram Colony, Ghaziabad -201001 Also At- Plot No 19, Kharsa No 566, Gangapuram, Ghaziabad 201001 Manosi Asmitaben : Plot No 11, Gangapuram, Ghaziabad -201001 Fehar Ashwinlal R - Plot No 11, Gangapuram, Ghaziabad -201001 Also At- Plot No 19, Kharsa No 566, Gangapuram Colony, Ghaziabad -201001 Fehar Hareesh Ranchhodhba - Plot No 11, Gangapuram, Ghaziabad -201001 Also At- Plot No 17, Kharsa No 566, Gangapuram, Ghaziabad -201001 Loan Account No. 946035 Rs. 2844962.35/- (Rupees Two Eight Lacs Forty Four Thousand Nine Hundred Sixty Two And Thirty Five) as of 14.08.2020 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc	Property No 1: All that piece and parcel of Plot No 17, Kharsa No 566, Gangapuram Colony, Village Dasna, Ghaziabad -201001 Property Area 250.50sq Yds Sale Deed in favour of Shri Babu Lal and Fehar Ashwin Bhai - North: Plot No 17, South: Road, East: Plot No 20, West: Plot No 20 Second Property 2: All that piece and parcel of Shop No. 111, (First Floor), without roof rights in S.G.S.Beta Tower, Plot No 10/0 Off. Comm / Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad - 201010 admeasuring 410sq.ft.	1) E-AUCTION DATE: 29.11.2024 -10.30 AM to 12.30 PM WITH UNLIMITED EXTENSION OF 5 MINUTES 2) LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD WITH KYC 27.11.2024 - TILL 5 PM 3) DATE OF INSPECTION: BETWEEN 25.11.2024 - 12.00 PM TO 2.00 PM IST	Reserve Price (IN INR): Rs. 13014942/- (Rupees One Crore Thirty Lakhs Fourteen Thousand Nine Hundred Forty Two Only) EMD Amount (IN INR): Rs. 1301495/- (Rupees Thirteen Lakhs One Thousand Four Hundred Ninety Five Only)
Kuldip Singh H.No. D-31, Sector 61, Noida- 201301 Also At: Shop No. 112, (First Floor), S.G.S.Beta Tower, Plot No. 10/0 Off. Comm / Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad, - 201010 Also At: Shop No. 111, (First Floor), Plot No. 10/0 Off. Comm / Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad -201010 Also At: No.C-3, Abadi Hazara Park, Shiv Puri, Village Khurej, Kharsa, Ilaga Shadara, Delhi-110051 Manji Kaur H.No. D-31, Sector 61, Noida- 201301 Also At: Shop No.112, (First Floor), S.G.S.Beta Tower, Plot No.10/0 Off. Comm / Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad, - 201010 Also At: Shop No. 111,(First Floor), S.G.S.Beta Tower, Plot No. 10/0 Off. Comm / Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad - 201010 Also At: No.C-3, Abadi Hazara Park, Shiv Puri, Village Khurej, Kharsa, Ilaga Shadara, Delhi-110051 Loan Account No. 444780 Rs. 3556653/- (Rupees Ninety Five Lakhs Fifty Six Thousand Six Hundred Fifty Three Only) together with further interest thereon @ 18% per annum till actual realization.	Property No 1 All that piece and parcel of Plot No 112, (First Floor), S.G.S.Beta Tower, Plot No. 10/0 Off. Comm / Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad, - 201010 Also At: Shop No. 111, (First Floor), Plot No. 10/0 Off. Comm / Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad -201010 Also At: No.C-3, Abadi Hazara Park, Shiv Puri, Village Khurej, Kharsa, Ilaga Shadara, Delhi-110051 Loan Account No. 444780 Rs. 3556653/- (Rupees Ninety Five Lakhs Fifty Six Thousand Six Hundred Fifty Three Only) together with further interest thereon @ 18% per annum till actual realization.	1) E-AUCTION DATE: 29.11.2024 -10.30 AM to 12.30 PM WITH UNLIMITED EXTENSION OF 5 MINUTES 2) LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD WITH KYC 27.11.2024 - TILL 5 PM 3) DATE OF INSPECTION: BETWEEN 25.11.2024 - 12.00 PM TO 2.00 PM IST	Reserve Price (IN INR): Rs. 4384328/- (Rupees Forty Three Lakhs Eighty Four Thousand Three Hundred Twenty Eight Only) EMD Amount (IN INR): Rs. 438432/- (Rupees Four Lakhs Eight Thousand Four Hundred Twenty Two Only)
Ms. Kaushalya C-33/A Shiv Park Khanpur Pole No 19 new Delhi Delhi-110062 Delhi And Also Apartment No. GF-08F-2, GF Block-F-2nd, Outfend Aptment Charmwood Village Surajkund Road Village Lakkarpur Faridabad-121005 Karamvir Parkash GF-08F-2 Charmwood Village Faridabad-121003 Haryana Kaushalya Pal GF-08F-2 Charmwood Village Faridabad-121003 Haryana Karan Vir C-33/A Shiv Park Khanpur Pole No. 10 Delhi-110062 Kaushalya Pal C-33/A Shiv Park Khanpur Pole No. 10 Delhi-110062 Loan Account No. - 13958155 & 4832979 Rs. 4234924.22/- to repay the amount mentioned in the notice being (Rupees Forty Two Lakhs Thirty Four Thousand Nine Hundred Twenty Four and Paise Twenty Two Only) as of 09.06.2023 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc	All that piece and parcel of Apartment No. GF-08F-2, GF Block-F-2nd, Outfend Aptment Charmwood Village Surajkund Road Village Lakkarpur Faridabad-121005 Karamvir Parkash GF-08F-2 Charmwood Village Faridabad-121003 Haryana Kaushalya Pal GF-08F-2 Charmwood Village Faridabad-121003 Haryana Karan Vir C-33/A Shiv Park Khanpur Pole No. 10 Delhi-110062 Kaushalya Pal C-33/A Shiv Park Khanpur Pole No. 10 Delhi-110062	1) E-AUCTION DATE: 29.11.2024 -10.30 AM to 12.30 PM WITH UNLIMITED EXTENSION OF 5 MINUTES 2) LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD WITH KYC 27.11.2024 - TILL 5 PM 3) DATE OF INSPECTION: BETWEEN 25.11.2024 - 12.00 PM TO 2.00 PM IST	Reserve Price (IN INR): Rs. 3176798/- (Rupees Thirty One Laks Seventy Six Thousand Seven Hundred Ninety Eight Only) EMD Price (IN INR): Rs. 317680/- (Rupees Three Lakhs Seventeen Thousand Six Hundred Eighty Only)

The intending bidders are advised to visit the Branch and the properties put up on Auction, and obtain necessary information regarding charges, encumbrances. The purchaser shall make his own enquiry and ascertain the additional charges, encumbrances and any third party interests and satisfy himself/herself in all aspects thereto. All statutory dues like property taxes, electricity dues and any other dues, if any, attached to the property and the time mentioned above. (9) Bids that are not filled or Bids received beyond last date will be considered as invalid Bids and shall be summarily rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, same cannot be withdrawn. If the bidder does not participate in the bid process, EMD deposited by the Bidder shall be forfeited without further recourse. However, EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded without interest. (6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price along with increment value of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only). The property shall not be sold below the Reserve Price set by the Authorized Officer. (7) The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately but not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/ New Delhi or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS", Account No. 00210310002748; IFSC Code: HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUR, HYDERABAD, on or before date and time mentioned above. (8) Bids that are not filled or Bids received beyond last date will be considered as invalid Bids and shall be summarily rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, same cannot be withdrawn. If the bidder does not participate in the bid process, EMD deposited by the Bidder shall be forfeited without further recourse. However, EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded without interest. (6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price along with increment value of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only). The property shall not be sold below the Reserve Price set by the Authorized Officer. (7) The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately but not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/ New Delhi or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS", Account No. 00210310002748; IFSC Code: HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUR, HYDERABAD, on or before date and time mentioned above. (8) Bids that are not filled or Bids received beyond last date will be considered as invalid Bids and shall be summarily rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, same cannot be withdrawn. If the bidder does not participate in the bid process, EMD deposited by the Bidder shall be forfeited without further recourse. However, EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded without interest. (6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price along with increment value of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only). The property shall not be sold below the Reserve Price set by the Authorized Officer. (7) The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately but not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/ New Delhi or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS", Account No. 00210310002748; IFSC Code: HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUR, HYDERABAD, on or before date and time mentioned above. (8) Bids that are not filled or Bids received beyond last date will be considered as invalid Bids and shall be summarily rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, same cannot be withdrawn. If the bidder does not participate in the bid process, EMD deposited by the Bidder shall be forfeited without further recourse. However, EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded without interest. (6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price along with increment value of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only). The property shall not be sold below the Reserve Price set by the Authorized Officer. (7) The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately but not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/ New Delhi or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS", Account No. 00210310002748; IFSC Code: HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUR, HYDERABAD, on or before date and time mentioned above. (8) Bids that are not filled or Bids received beyond last date will be considered as invalid Bids and shall be summarily rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, same cannot be withdrawn. If the bidder does not participate in the bid process, EMD deposited by the Bidder shall be forfeited without further recourse. However, EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded without interest. (6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price along with increment value of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only). The property shall not be sold below the Reserve Price set by the Authorized Officer. (7) The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately but not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/ New Delhi or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS", Account No. 00210310002748; IFSC Code: HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUR, HYDERABAD, on or before date and time mentioned above. (8) Bids that are not filled or Bids received beyond last date will be considered as invalid Bids and shall be summarily rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, same cannot be withdrawn. If the bidder does not participate in the bid process, EMD deposited by the Bidder shall be forfeited without further recourse. However, EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded without interest. (6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price along with increment value of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only). The property shall not be sold below the Reserve Price set by the Authorized Officer. (7) The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately but not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/ New Delhi or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS", Account No. 00210310002748; IFSC Code: HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUR, HYDERABAD, on or before date and time mentioned above. (8) Bids that are not filled or Bids received beyond last date will be considered as invalid Bids and shall be summarily rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, same cannot be withdrawn. If the bidder does not participate in the bid process, EMD deposited by the Bidder shall be forfeited without further recourse. However, EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded without interest. (6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price along with increment value of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only). The property shall not be sold below the Reserve Price set by the Authorized Officer. (7) The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately but not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/ New Delhi or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS", Account No. 00210310002748; IFSC Code: HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUR, HYDERABAD, on or before date and time mentioned above. (8) Bids that are not filled or Bids received beyond last date will be considered as invalid Bids and shall be summarily rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, same cannot be withdrawn. If the bidder does not participate in the bid process, EMD deposited by the Bidder shall be forfeited without further recourse. However, EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded without interest. (6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price along with increment value of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only). The property shall not be sold below the Reserve Price set by the Authorized Officer. (7) The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately but not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/ New Delhi or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS", Account No. 00210310002748; IFSC Code: HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUR, HYDERABAD, on or before date and time mentioned above. (8) Bids that are not filled or Bids received beyond last date will be considered as invalid Bids and shall be summarily rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, same cannot be withdrawn. If the bidder does not participate in the bid process, EMD deposited by the Bidder shall be forfeited without further recourse. However, EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded without interest. (6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price along with increment value of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only). The property shall not be sold below the Reserve Price set by the Authorized Officer. (7) The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately but not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/ New Delhi or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS", Account No. 00210310002748; IFSC Code: HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUR, HYDERABAD, on or before date and time mentioned above. (8) Bids that are not filled or Bids received beyond last date will be considered as invalid Bids and shall be summarily rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, same cannot be withdrawn. If the bidder does not participate in the bid process, EMD deposited by the Bidder shall be forfeited without further recourse. However, EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded without interest. (6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price along with increment value of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only). The property shall not be sold below the Reserve Price set by the Authorized Officer. (7) The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately but not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/ New Delhi or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS", Account No. 00210310002748; IFSC Code: HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUR, HYDERABAD, on or before date and time mentioned above. (8) Bids that are not filled or Bids received beyond last date will be considered as invalid Bids and shall be summarily rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, same cannot be withdrawn. If the bidder does not participate in the bid process, EMD deposited by the Bidder shall be forfeited without further recourse. However, EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded without interest. (6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price along with increment value of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only). The property shall not be sold below the Reserve Price set by the Authorized Officer. (7) The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately but not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/ New Delhi or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS", Account No. 00210310002748; IFSC Code: HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUR, HYDERABAD, on or before date and time mentioned above. (8) Bids that are not filled or Bids received beyond last date will be considered as invalid Bids and shall be summarily rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, same cannot be withdrawn. If the bidder does not participate in the bid process, EMD deposited by the Bidder shall be forfeited without further recourse. However, EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded without interest. (6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price along with increment value of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only). The property shall not be sold below the Reserve Price set by the Authorized Officer. (7) The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately but not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/ New Delhi or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS", Account No. 00210310002748; IFSC Code: HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUR, HYDERABAD, on or before date and time mentioned above. (8) Bids that are not filled or Bids received beyond last date will be considered as invalid Bids and shall be summarily rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, same cannot be withdrawn. If the bidder does not participate in the bid process, EMD deposited by the Bidder shall be forfeited without further recourse. However, EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded without interest. (6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price along with increment value of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only). The property shall not be sold below the Reserve Price set by the Authorized Officer. (7) The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately but not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/ New Delhi or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS", Account No. 00210310002748; IFSC Code: HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUR, HYDERABAD, on or before date and time mentioned above. (8) Bids that are not filled or Bids received beyond last date will be considered as invalid Bids and shall be summarily rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, same cannot be withdrawn. If the bidder does not participate in the bid process, EMD deposited by the Bidder shall be forfeited without further recourse. However, EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded without interest. (6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price along with increment value of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only). The property shall not be sold below the Reserve Price set by the Authorized Officer. (7) The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately but not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/ New Delhi or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS", Account No. 00210310002748; IFSC